

इंडियन रेलवे केटरिंग एवं टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम-मिनी रत्न)

INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Enterprise-Mini Ratna)

"CIN-L74899DL1999GOI101707". E-mail: info@irctc.com, Website: www.irctc.com

No. 2019/IRCTC/CS/ST.EX/356

Dated: September 30, 2021

BSE Limited

(Through BSE Listing Centre)

1stFloor, New Trade Wing, Rotunda Building PhirozeJeejeebhoy Towers, Dalal Street Fort, Mumbai - 400 001

Scrip Code: 542830

National Stock Exchange of India Limited (Through NEAPS)

"Exchange Plaza", C-1, Block-G, Bandra-Kurla Complex. Bandra (East), Mumbai - 400 051

Scrip Symbol: IRCTC

Sub: Newspaper Publication regarding fixation of Record Date for Sub-division/Split of shares of the Company.

Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find enclosed herewith Newspaper advertisement published in the "Business Standard" (in English version) and "Dainik Jagran" (in Hindi version) on September 30, 2021 regarding fixation of Record Date to ascertain the name of shareholders entitled for Sub-division of equity shares of Rs.10/- each into five (5) equity shares of face value of Rs. 2/- each.

This is for your information and record please.

Thanking you,

Yours faithfully,

For and on behalf of Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited

(Suman Kalra)

Company Secretary and Compliance Officer

Membership No.: F9199

Encl: as above





Regd. Office: 11° Floor, Statesman House, B-148, Bankhamba Roed, New Delhi-119931, India 1a: 011-23311253-44 Fac: 011-23311259, Email id: Inwaston@fincle.com; Website: www.inste.com

NOTICE OF RECORD DATE FOR SUB-DIVISION/SPLIT OF EQUITY SHARES

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company has fixed "Friday, 29th October, 2021" as the "Record Date", to ascertain the name of shareholders entitled for Sub-division/split of equity shares of Rs.10/-each into five (5) equity shares of face value of Rs.2/-each.

For Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited (Suman Kalra)

Place: New Delhi Company Secretary and Compliance Officer Membership No.: F9199

Business Standard **DELHI EDITION**

Plinted and Published by Nandan Singh Bawat on behalf of Business Standard Rivete limited and printed at The Indian Express (P) ind. A.-B. Sector-7, No. da. Gautam Budh Nagar-201 301 and published at Nehru House, 4 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110002

Editor: Shyamal Majumdar

BMI NO. 57 376 / 994

Readers should write their feedback at fe edback@bsmail.in Ph. 011-2372 0202. Fax :+ 91-11-23720201

For Subscription and Groulation enquiries please contact: Ms. Mansi Singh Head-Customer Relations Business Standard Private Limited. H/4 & I/3, Building H,Paragon Centre, Opp. Birlia Centurion, PB Marg, Worli. Mumbai - 400013 E-mail: subs ba@bsmail.in "or sins, REACHBS TO 57575

DISCLAIM ER News reports and feature attides in Business Standard seek to present an unbiased picture of developments in the mariets, the corporate world and the government. Actual developments can turn out to be different awing to draws tances beyond Business Standard's control and In owledge. Business Standard does not take any responsibility for investment or business decisions taken by readers on the basis of reports and articles published in the newspager. Readers are expected to form their own judgement.

Business Standard does not associate itself with or stand by the contents of any of the advertisements accepted in good faith and published by it. Any dain related to the advertisements should be directed to the advertisers concerned.

Unless explicitly stated otherwise, all lights reserved by M& Business Standard Pvt. Ltd. Any printing, publication, reproduction, transmission or redissemination of the contents, in any form or by any means, is prohibited without the prior written consent of M/s Business Standard Pvt. Itd., Any such prohibited and unauthorised act by any person/legal entity shall invite civil and ciminal liabilities.

No Air Surcharge

Bokaro Power Supply Co. (P) Ltd.

(A Joint Venture of SAIL & DVC) Old Administrative Building, ISPAT Bhawan. Bokaro Steel City, Jharkhand

Material Management Department, BPSCL is organizing Virtual Vendor Meet on 22.10.2021 to create awareness about the various aspects of Procurement and Tendering. For more details and link, kindly visit www.bpscl.com

पंजाब नेब्रनल बैंक 🥒 punjab national bank

Head Office: Plot No. 4. Sector-10. Dwarks. New Delhi-110075 (E-mail: operations@pnb.co.in)

Important announcement for e-OBC and e-UNI customers

Dear Customers, as already informed through various channels like SMS alert, Corporate Website, Social Media, Print Media, ATMs. Branches on various occasions, it is further informed that old cheque book of eOBC & eUNI are going to be discontinued from 01.10.2021, Please replace your old cheque book of eOBC & eUNI with PNB cheque book with updated PNB IFSC and MICR. Get your new cheque book from your branch or apply through

All the customers are requested to use new PNB Cheque Book with updated PNB IFSC & MICR only now onwards to avoid any transactional inconvenience. Please contact our toll-free number 18001802222 for any assistance or query. Chief General Manager

Notice

Nezone Strips Limited

Nezone House, 19, Jatin Das Road

Kolkete-700029

NOTICE

Notice is hereby given that the share

Certificate No.0163/3 with Distinctive

no(s) 4745001-4770000 in respect o

Folio No.00223 Registered in the name of

BHAGWAN DAS AGARWALA is reported

to be lost and the Company has received

application for issue of Duplicate Share

Certificate(s). If no objection from any

interested person is received by the

Company's registrars Maheshwari

Detamatics Pvt. Ltd., 23, R. N. Mukheriee

Road, Kolkata-700001, within 15 days

from the Publication beneaf the Company

will proceed to issue duplicate share

Certificate(s) to the applicant(s).

Date: 27-09-2021

C&S Electric Limited [C89-LG1909DL1971PLC005672] Regd. Office: 222, Oktob Industrial Estats New Delhi -110 826, Tel: 011-33549080 uc: 011-2502 9063, Dread ld: Info@coelectric

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act. 2013 read with Investor Education and Protection Fund (IEPF Authority (Appounting, Audit, Transfer and Refund) Rules 2015 and any amendment thereof ("Rules") all such shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for a period of 7 consecutive years or more shall be transferred to the DEMAT Account of Investor Education and Protection Fund (EPF) Authority, Individual notices have been sent on 30/09/2021 to all shareholders whose shares are liable to be so transferred and perficulars of such shareholders have been uploaded on Company's website at https://cselectric.co.in/investors-relations/

Please be informed that after transfer of the shares to the IEPF DEMAT Account, no claim shall lie against the company though any person whose shares have been transferred to the Fund would have the right to claim the Shares so transferred from IEPF (Authority in the manner prescribed in the Rules.

For CAS Electric Limited

Arup Sabi Place: New Delhi Company So Date : 30.09.2021

ING CONSTRUCTION LIMITED (in Liquida) CIN: L48262NH1976PLC018135

Date & Time of Auction: October 21, 2021 from 11:00 A.M. to 02:00 P.M. (With unlimited extension of 5 minutes each):

Sale of Assets of Petron Engineering Construction Limited (Corporate Debter) which are par of the Liquidation Estate formed by the Liquidator, appointed by the Honbie National npany Law Tribunal, Mumbal Bench vide order dated 23.01.2020. The sale of assets wi be done by the undersigned through the e-auction platform https://sclauction.auctionlige.net. The details of assets to be auctioned, their Reserve Price. EMD Amount & Incremental Bids given in the below table:

| Fine, Cho remedit a recent characteristic great in the serve laws. | | | |
|---|-----------------|--|--|
| Assets | Raserve Price | EMD Amount & its submission timeline | Incremental Amount of Bid |
| Plant & Machinery (Assets) of the Corporate Debter located at its "Deemas Stable)." For more details in relation to assets and terms & conditions of the auction, please rater the Process Document available on the website of the Corporate Debter http://petronergiresring.com/fujuktures- process/buildation-process | Rs. 2,87,15,671 | Rs. 28,71,567 Timeline: From 30th September, 2021 to 14th October, 2021 | Incremental bid above Rs. 20,000 |

For any further information or clarification, you may please reach out to the Liquidator at 011 49121644-45 or his team member, CS Loviesh Batra at +91 83989-94547.

For Petron Engineering Construction Limited (In Liquidation)

CS Vincet K Chaudhary

In the matter of Petron Engineering Construction Limited IBBI Registration No.: IBBI/IPA-002/IP-N00103/2017-18/10245 liquidatoroepk@vkpladia.com/process.specific/ ip.vineetshaudhary@gmail.com (registered with IBBI) D-38, LGF (L/S), South Extension, Part-II, New Delhi-110049

Date: 30.09.2021

Open Letter to Securities and Exchange Board of India from Foreign Portfolio Investors (FPIs) on T+1 settlement

The Honourable Shri Ajay Tyagi Chairman, Securities and Exchange Board of India September 30, 2021

Dear Chairman Tyagi,

Representing foreign partfolio investors ("FPIs") from around the world whose investments account for US\$655 billion or roughly 20% of India's market capitalization, we are writing this open letter to express our position on India's move to a T+1 settlement cycle as set out in the Circular dated September 7, 2021 (the "Circular") issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

The undersigned and the FPIs that we represent fully recognize and appreciate the desire of certain equity markets, such as the U.S. and India most recently to shorten their settlement cycle to improve market liquidity and reduce settlement risk in their market. However, it is important also to bear in mind risks not only to investors but also to brokers, custodians and other market participants arising from falled trades or falled settlement that may impact the market as a whole due to the shortened settlement timeframe. It would have been helpful if FPIs represented by the undersigned associations were consulted or at least have had an opportunity to engage in dialog with SEBI, the two stock exchanges, the two dearing corporations and the two depositories in India before the Circular was issued.

Migration to a T+1 settlement would require changes that are significantly more complex and costly (as supported by research conducted by the Boston Consulting Group in 2012 and by the World Bank specifically on India in 2013), requiring among other things end-to-end process redesign and substantial technology investments and enhancements to support near real-time processing capabilities and necessitating an extended migration timeline. This is particularly true for overseas investors (such as those based in the U.S. and Europe) investing into a local market (such as India) due to time zone differences and the involvement of multiple parties (such as global and local custodians, FX banks and brokers) in different jurisdictions. We know that at least 64% of the FPIs investing into the India market are from non-Asia jurisdictions, which means that they are even more affected by a shortened settlement cycle in India.

In the U.S., for example, after the Securities and Exchange Commission ("SEC") supported the move from T+3 to T+2 settlement, it took the industry two years to develop the necessary processes and procedures and conduct the necessary testing before the move was achieved. When it was proposed in early 2021 that the U.S. move to a T+1 settlement, a similar 2-year timeline for the change was planned and industry participants are working hard to meet the 2023 timeline.

FPIs are ready to work with SEBI, other regulatory authorities and market participants to identify and find solutions to the numerous operational (such as cut-off times for trade confirmations, funding, and securities borrowing and lending facilities to avoid failed trades or failed settlements) and business challenges (such as pre-funding, allocation and tracking error) that come with a shorter settlement cycle to ensure that India's migration to a T+1 settlement can be achieved with little disruption or risk to the market and to preserve the market's attractiveness to FPIs.

Therefore, we strongly urge SEBI to delay the coming into effect of the Circular that is scheduled for January 1, 2022 so that all stakeholders have sufficient time to identify, come up with, test and implement the operational processes and procedures required to safely implement a T+1 settlement model in India.







- Asia Securities Industry & Financial Markets Association (ASIFMA) is an independent, regional trade association with over 150 member firms comprising a diverse range of leading financial institutions from both the buy and sell side, including banks, asset managers, law firms and market infrastructure service providers. ASIFMA's Asset Management Group's 37 members are among the world's largest asset managers, many of which are headquartered in the USA and Europe.
- 2 Asia TraderForum (ATF), founded in 2011, is a membership group for buyside equity traders in the Asia Pacific region.
- The Investment Association (IA) is the trade association that represents the United Kingdom's investment management industry. The IA's 250 member firms manage £9.4 trillion on behalf of savers and investors across the world.

Advertorial

शहर के बीचों-बीच सस्ते मकान का सपना मुश्किल, सबसे ज्यादा पैसा देने वाले को मिलेगा

रिवेयरा टाउनशिप के पास राहुल नगर के मकानों से ऑनलाइन बिडिंग की शुरुआत, नगर निगम हाउसिंग फॉर ऑल में बना रहा है मकान

जारात्वा प्रतिनिधि, भीपाता शहर में हर तथके का आदिवानि का राज्य पूर्व करने के लिए बन दें मकाने की अब बोले भी लोगे हैं काने के बितान ज्याद किया दें ने का अकिए में तुर्ज और यह मकान केंग्नी जाता में दें का की पह ने का जी पह मुक्त नगर में मन दें मकाने ही दर्शनों पुरुआत को का दो है। अत्तनाहन कीन्य पुरुआत पूर्व हैं किया कोर्यों कार्य केंग्नी पुरुआत कींट्र पुरुआ अस्म अल्पी कार्य केंग्नी पुरुआत कींट्र है कि अस्म आदमी कार्य के बीलों भीच

अतम आदमा शहर क वाया-व अवाया नहीं खरीद पाएगा। दूरदराज के हत्ताकों में धल रहे प्रोजेक्ट्स में ही मकान लेना होगा। हारतिसंग फॉर ऑल में नगर निगम ने रहेकेशन के हिस्सा से मकानों को कोमत तम की खास दनिक आगरण

खबर है। कुछ जगह एलआईजी 22 लाख के हैं तो कहीं इससे कम कीमत रात्य के हैं तो कहा हरता कम कार्या की विशेष में बेचे जा होते हैं। शहूत नगर में एलआईमी की बेस प्राइस 22 लाख रुपए एकी गई है। इससे ज्यादा बीमत देने वालों को पाये मकारा बेचे जाएंगे। 51 हजार का टारगेट, 13-14 हजार ही बना पा हो। हांडसंग फर्नेट ऑल मोजना में भोचाल में

करीब 51 हजार मकान बनाने का टारगेट दिया गया है। इंडब्ल्यूएस के साथ एलआईजी व एमआईजी



यहां हैं मकान के प्रोजेक्ट

- ांचा नगर, रक्षम भार में 3008 ईक्षमपुरा, 144 एनआईजी भारतुर में 768 ईक्षमपुरा, 720 एरआईजी मान पुर्वाणिक में 1584 ईक्षमपुरा, 750 एरआईजी वाम पुर्वाणिक में 1584 ईक्षमपुरा, 750 एरआईजी विकेशन अस्मम में 576 ईक्षमपुरा, 550 एरआईजी व 500 एथआईजी मार्लेखोड़ी 1540 ईक्षमपुरा, 542 एलआईजी, 156 एएआईजी

अध्यक्षि का निर्माण किया जा रहा है। योजना शुरू हुए करीन चंच साल कर समय चेता चुका है यर ज्ञाचतार निकायों में दारहेट पूत्र नहीं हो पाया है। राजभानी की ही बात करें जो 13 से 14 तजार माकत ही बात करें हैं। बातों का काम भंदर की अपने की जात हैं। याती तहन नहीं हो था रहा है राजहार नहीं चन्ह या रहा है।

प्रभार पार पण्ड पार ह।
जामीन सेचाने की कोशिश नाकाम: प्रदेश के
अधिकाश नगरीय निकासों के पास शुग्गीवारियों
को मकान देने से खाली हुई जमीन उपलब्ध है।
इनको सेच कर पैसा जुटाने का प्लान है। भौपाल इनका बच्च कर पता जुटान का प्लान है। भाषात नगर निगम रचाम नगर, 12 नेबर स्टॉप समेत अन्य रचानों को खाली जयीन बेचने की नाकाम कोशिश कर चुका है। केवल एक ही जगह खरीदार ने दिलचस्मी दिखाई। ऐसे में निगम प्रशासन को अन्य विकल्प तलाशना पड़े। अब यह तय किया गया है

कि खाली भूमि पर एमआईजी मकान बना कर बेचे जाएंगे। यह प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जाएगा १ क्ट आजक्ट पालाका आहवट फटनवराच पर भी किए जा सकत हैं इसकी मालने वाली वीत्रे से इंडक्ल्यूएस य एलआईजी मकानी का निर्माण किया जाएणा । इसके अलवात कुछ जगड रिक्त जमीन पर इक्तरें व कॉमलेक्स जनगर जा तकते हैं। 32 जंबर इस्तरें व कॉमलेक्स जनगर जा तकते हैं। 32 जंबर इस्तरें के पास इसके लिए जमीन चिन्तांकित करने

स्टाप के पार्टी इसके रिलंड क्योग प्रधानाक करने की प्रक्रिया भी भारत ही है शुक्रमां ने भागे से होने बाले मुनके से हासिंग करें. ऑन के सकानों का निर्माण किया जाएण। अ कुछ अच्छी शोकेशन के प्रोजेक्ट्रस के सकान ऑनसान विडिंग से बेचे जाएंगे। गहुल नगर में बचे हुए सकानों के लिए पर प्रक्रिया भी जा स्त्री है। क्लेसिंग्जा में भी ऐसा ही करेंगे।

वीएस चौधरी कोलसानी, कमिञ्चर, नगर निगम

कंप्लीशन सर्टिफिकेट और कंपाउंडिंग के लिए थमाएंगे 15 हजार नोटिस

जागरण प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में बीते यांच साल में लगधग 15 हजार बिल्डिंग पर्रीमशन जारी की 15 हजार विकिटन प्रतिस्तन जार को ।
गई। इनमें से ज्यादासर ने भवन या मकान का निर्माण पुर होने के बाद कंप्लीशन सर्विकेट नहीं लिया। ऐसे में जगर सर्विकेट नहीं लिया। ऐसे में जगर सर्विकेट नहीं विकास ने इन सभी को नीटिस बमाना शुरू कर दिया है। कंप्लीशन सर्विकेट के साथ ही । अनुमति से ज्यादा निर्माण होने की रिवर्ति में कृंपार्टिंग कवने के लिए कहा जा

है। इस सिलसिले में नगर निगम मरनर वीएस चौधरी कोलसानी ने सी आर्किटेक्ट्स के साथ झल में बैटक की थी। उनकी ओर से जारी अनुमतियों

में पूर्णता प्रमाण पत्र और कंपासिटेंग कराने के लिए कहा है। एक इकार में अधिका को दिए मीडिटा: वर्ष 2016 से अब तक दी मिंग पाना अनुसाकी को दुसकी तक दो मिंग पाना है। वकारा जा जा है पांच साल में निके आर्थि-देवारण ने दर्श कारा में की बार्जि पाना में करीब पारा हमारा और नगर निराम ने करीब पारा हमारा सीडीवार्डन पर्योक्तन दी हैं। आप तह सामा में कंपालिक सीडीवारण दी हैं। आप तम्म अपनात्री में उपलब्ध निर्माण विश्वा किया ना

अनुमति से ज्यादा निर्माण किया है तो कंपाउंडिंग कराने के लिए नोटिस जारी कपाठीडगं करान के लिए नाटस जाए किए जा रहे हैं। इसमें विल्डर और मकान मालिक ज्ञामिल हैं। जोनवार नोटिस दिए जा रहे हैं। अब तक एक हजार से ज्यादा नोटिस धमाए जा चके हैं।

इसलिए नहीं लेते कंप्लीशन सर्टिफिकेट

राहर में प्रकान निर्माण के लिए लोग दो तरह को दुर्शिंग जनवाते हैं। एक दुर्शिंग नगर लिगम में अनुमति के लिए होती है और दूसरों यो जिसके मुताधिक निर्माण विकास जाएक। अनुर दुर्शिंग से वास्त्रीयक निर्माण कार्यों अलग होता है और ज्याद भी। अब इस लिती में आरर सकार मोलक निर्माण कार्यों अलग होता है और ज्याद सिंहर अविरंग कता है तो विशेष्टिंग परिकार नाहबा का सोनियर निर्माण करते

कंप्यूटर साइंस में सर्वाधिक रुझान सात नयी ब्रांचों में भी मिलेगा प्रवेश

तकनीकी शिक्षा विभाग बीई की 48 बांच की 54 हजार सीटों पर कराएगा दाखिला

कार्यालय प्रतिनिधि, भोपाल । तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चर और एग्री इंजीनियरिंग जैसी नई बांचों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंटस प्राचा के स्वाच आहारिकाराचन हरालजहरू, इंटरनेट ऑफ चिंग्स, डेटा वाईस सहित 48 बांचों की करीब 54 हजार सीटों पर प्रवेश कराने आत्तवाइन कार्डसलिंग कराई जा रही है। प्रथम राइंड में प्रवेश लेने बीस हजार विद्यार्थियों में से करीब 17 हजार ने ज्याइस फिलिंग की है। इसमें विभाग को करीब साढे पांच लाख च्याइस फिलिंग मिली है। सत्र भाष लाख ज्याहत एमलना गर्नला है। राह्य 2021-22 में निद्यार्थियों का कंज्युटर साहंस इंजीनियरिंग (सीएसई) खांच से इंजीनियरिंग की चड़ाई करने में अधिक रुह्यान दिखाया है। सीएसई की 13 हजार 325 सीटों पर प्रयेश सीएसई की 13 हजार 325 साटा पर प्रवस लेने सबसे ज्यादा एक लाख 28 हजार प्याइस फिलिंग हुई है। सबसे कम पांच विद्यार्थियों ने एप्लाईड इलेक्ट्रानिक्स एंड इंस्ट्र्मेंटेशन में व्याइस फिलिंग दी है। सिविल इंजीनियरिंग से अधिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग,

बांच च्वाइस फिलिंग 1,27,616 31,800

32,000 31,000 15,604 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन (ईसी).

इत्तक्ष्मान्यस्य एड कम्युनकस्यन् (इस्त), इन्यमध्येतर देवनाव्यी में अधिक रहातः है। मैकेनिकतः इंजीनिवर्धांग से आगे इंग्री और आईटी बनी हुई है। विभाग प्रथम चरण का आईटन तीन अक्टूबर को करेगा। विद्यार्थी इन अर्थार्थी की मी मांगः आर्टिशियास्य इंटरलेंग्रेस, रोजीटिकस एंड मैक्ट्रिलियस, क्यार्था

साइंस, इलेक्ट्रिकल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग की तरफ छात्रों

का शुकाव है। सीमार्ख में ज्यादा नौकरी के अवसरः

कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अधिक रुझान है। विद्यार्थी को कोर ब्रांच की अपेक्षा क्षात्र हैं। निवार्त्य को कोर सांच की अधेशा तंग्वयार्थ के अकेश नेकार के अवस्थार तंग्वयार्थ हैं। आर्रटी कीर राजेव्हाणिक्य एंट्र कर्माणिक्ष्म हैं दरिन्दे और पित्र प्राचित्र कीर केरियार्थ केरियार्थ आर्थिकारी) आर्थिकार्यक्ष रहेरियार्थ काह्य-की टेक्नोलांकी में प्लेसमेंट की प्रधानन कर तो हैं 100 से क्षम मिली इस्ट्रें आहाह्य दिव्हाणिक्ष एवसी केरियार्थ केरियार्थ केरियार्थ प्रदेश्योत्रिक की सबसे क्षम चांच आहार विकास एवसी कीरियार्थ हमें स्थान्त्रिक एक्साणिक्ष एवसी कार्यों कार्यों कार्या

77, माहाना एड ामनल्स प्रावासंग 16, फूड टेक्नालाबी 55, डाटा साहंग 26, साहंगर रिसम्बुरिटी ड2,श्वियल एंड रुरल 69, बायोमेडिकल एंड रोमोटिक 52, ऑटिंफ्डियल इंटीलबेंस 84, एडी टेक्नालाबी 43 और उडी एनिस्तन एंड प्राफिक्स 73 च्वाहस के रूप में चुने गये हैं।



भारत टॉबीज चीराह के पास थियी पाइच लाइन में बुधवार सुबह लीकेज हो गया। इससे लगातार पानी बहता रहा और सड़क पर भर गया। पहले से ही खराब इस सड़क पानी भरने से बाहब मालकों को कच्छी परेशानी हुई। छावा। एमसी बन्धें

घर के बाडे में इल्ली मार छिडक रहे किसान के मुंह में आई दवा, मौत

भोषाल (इसे)। पर के खाड़े में इल्ली मह दवा छिड़क रहे किरवन के मुंड में दवा जाने से इलान के दौरान मौत हो गई। घटना तीन दिन पुरावी है, तब वे बाद बेशुभ बा इस्तीलर उसके बचान दर्ज नहीं हो रहे। देरहोड़ी पुलिस में पीएक के बाद कब पतिन की सीत एक है। मान प्रमाद सुनील चतुनेंदी ने बताया कि 27 वर्षीय देवेंद्र याल पिल चड़ी प्रसाद पाल ग्राम शबपुर ईटखेड़ी में रहता था। वह खेती-किसानी करता था। गत 26 सितंबर की दीपहर देवेंद्र अपने घर के बाढ़े में इस्ली मार था। गा 20 तिर्माय को दोखर देवेंद्र अरून पर के बाई में एन्ले धार का विद्वार कर तथा था। इस त्रिय पार्ट के पूर्व पे देवा पार्ट का कि त्रिय पार्ट के द्वार पे देवा पार्ट के वार्ट में हमा के देवा पार्ट के त्रियों कर बेहुए दो गांध। परिवास में सुधार नहीं होने पर देविकों ने वेद्र के त्रियों कर के त्रियों कर वेद्र के त्रियों कर के त्रियों कर वेद्र के त्रियों कर तथा के त्रियों कर तथा है त्र के त्रियों कर तथा के त्रियों कर तथा के त्रियों कर तथा के त्र के त्

सतीज कर्मा (35) ने मंगलबार कत को बीमारी से तंग आकर फांसी लगा ली। यह फुछ दिनी से तनाय में चल रहा था। पुलिस के मुताबिक, सतीश को हार्निया की शिकाचत की थी, जिसका आपरेकन हुआ था। आरोरान के बाद हते चलने में प्रेरान ही थी, जिसका हुआ था। आरोरान के बाद हते चलने में पेरान ही हो थी। इसी के चलते उसने यह कदम उजया है। चुलिस ने दोनों मामलों में मर्ग कायस कर जांच शुरू कर दी हैं।

एम्स अस्पताल के कामकाज में आएगी पारदर्शिता ई-ऑफिस में जमा होंगी सभी अधिकारियों की फाइलें

डीडीए के रिखतकांड के बाद निदेशक ने लिया निर्णय, तीन दिन से ज्यादा अपने पास फाइल नहीं रख सकेंगे अधिकारी

जागरण संवाददाता, भोषाल। अखिल भारतीय आपूर्विक्तन संस्थान भोषाल में अब कामकाज और अधिक पारदर्शी होगा। इसके लिए अस्पनात और अधिक पारांची होंगा। इसके लिए एक्स आहत में ई. ऑक्सर आधीन कर किया के मिल् निर्माण होंगा होंगा होने विकेश कर किया होंगा के से निर्माण होंगा में रिन्हा की होंगा है। यह का स्था या। इस कोई से एक्स में रिन्हा की हुए एक्स में या। इस कोई से एक्स अस्पात है एक्स हो हुए या। इस कोई से एक्स अस्पात है। एक्स में हुए या। इस कोई से एक्स अस्पात है। एक्स में यो इस के अस्पात है किया में यह तह हुआ है कि अस्पात को से में हुए हुआ है। हिस में अस्पात का स्था या अस्पात एक्स में मान यह आहा है तिके अस्पात एक्स की से मान स्था कर हो। विकेश सात स्था या अस्पात एक्स में पत्त से मान हो। विकेश सात स्था या अस्पात है - असिया से पत्त करेंसे हुए हुन की सीया कोई सी अधिकारी तीन दिन से ज्याद अस्पे च्या

किसी भी फाइल को नहीं रख सकेगा, यदि ऐसा करता है तो ई-ऑफिस से ऑटोमेटिक एक रिमाइंडर मैसेज अधिकारी के साथ-साथ उसके

िव्यक्षित में मित्र अधिकारी के साथ-गाय उनके सीपर अधिकारी के में होता होगा इसी सरवात शुरू होगा काम । एवस की जनावंक्ष अधिकारी अपनीत अधिक ने सामा तो-अधिकार विभाग पर साहत तेनी में काम पत्त जा है। इसके लिए स्थान आहेरी हिम्मण्येत काम कर ता है। उसके हैं पत्त 4- अध्यूपर से पत्त अधिकार में आ जाएण और इसके याद पत्ती कामी के स्थान की आ जाएण और इसके याद पत्ती कामी के स्थान की से आ जाएण और इसके याद अधिकार के में पत्ती हों में आ जाएण और इसके याद अधिकार के में पत्ती हों में मित्र के अपन प्रमाणिक आपने के में पत्ती हों प्रमाण की हों की लिए हों के - अधिकार प्रमाण काम हों में में ही एकका या आए। देंड उसी इसीर प्रमाण में में में प्रमाण काम होंने प्रमाण एसमें के अधिकार पर से में

जाएगी, जो सीधे तौर पर टेंडर और खरीद प्रक्रिया से जुड़ी हैं। वैसे तो ई-गवर्नेस के माध्यम से एम्स

त जुड़ा है। यह ता हु-गजरित के मध्यम है एसी में पहले से डी बहुत काम हो जा है, लेकिन अब इस दिता में एक और कदम बहाते हुए इसे अनिवार्य किया जा जा है। ताकि प्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। तीन दिन विलंब पर आएगा मैसेज : जानकारी अनुसार एम्स ने ई-ऑफिस का सिस्टम कुछ इस तरह तैयार करवाया है कि यदि कोई कुछ इस तरक तथार करवाया है के पास तीन दिन से ण्यादा किसी अधिकारी के पास तीन दिन से ण्यादा ककती हैं तो एक मैसेज अधिकारी की मिलेगा। इतना ही नहीं एवस के डोल कर्मचारियों को भी एक विज्ञीय नंबर फाइलों पर अब दर्ज करना होगा, जिससे फाइलों के मिरिश्न होने से

इस्मों संबाददाता, भोष्णान एएके गर विश्व साथ पिलाय होटल में एक परित्य साथ पिलाय होटल में एक उपना है। उत्तरीय हिलोवर ने आर्थिक तेरी की बात कारकर उसी होटल में मिलाने मुलाय या जाते उसके नेवर रोकर गिराणी रखने की भारत अब्द प्रतिक्त में इसने प्रतिक्त में प्रतिक्त में प्रतिक्त को उसने प्रतासक कर उसका उसकी हिला असी है। प्रतिक्त में प्रतासक कर उसका उसका प्रतासक कर असी कि मुस्त कर है है।
पुनिस के पूर्ताचिक, जार्तगीवजार
हिन्तारी 20 याचैन परिस्त सार्तगुरा है।
क्षेत्र साल पहले हेंदी में एक जार्त प्रमापी ने प्रसिद्ध को पूर्ताचान प्रमापी हों में प्रसिद्ध को पूर्ताचान पिलोटा होंने का का को पूर्ताचान पिलोटा होंने का काना दोने में एक-दूसरे के प्रमादन कर हो लिए। उनके ब्रोचन करवकुक पर परिश्त होने लगा। हम दौराक आरोपी के पहिला का विकास



आर्थिक तंगी बता महिला को होटल में

क्षेत्र केराकुक पर वेदिया होने लगी। इस्से दीएक आरोपी ने व्यक्तित्व का शिवास्त्र को कीत सिवार और क्षेत्रीय सारी को बात मालवर मिला की पानि क्षाना और क्षात्रीय स्थाप ने प्रति का स्थाप ने कार्य ने स्थाप ने कार्य ने स्थाप ने स्थाप ने कार्य ने स्थाप ने स्थापन ने स्

आकर महिला, मंगलवार को मां के साथ एमपी नगर बाने पहुंची और आरोपे के खिलाफ केस दर्ज कराया। फिलहाल आरोपी की गिरफ्डारी नहीं

इक्किटी शेवरों के प्रच-विशरण ∕ विभाजन के लिए रिकार्ड तिथि की सूचना केन किया जाल है कि सेवी (एक्कोडीकार) विरोधा 2016

कृते इंडियन रेलवे कंटरिंग एंड दुरिज्य कॉरपोरेशन सिमिटे

विनांकः 29.09.2021

सीसीटीवी कैमरे में भागते हुए कैद हुआ था लुटेरा, पुलिस ने घर से दबोचा

मंदिर जा रही महिला से सरेराह लूट, आरोपी ने मणप्पुरम फायनेंस कंपनी में 30 हजार रुपए में गिरवी रखी चेन

हमारे संवाददाता, भोषाल। कोतवाली इत्ताके में मुध्यार सुबह जैन मंदिर जा रही एक महिला के साथ लूट हो गई। लुटेरा, महिला के गले हा यह । लुटल, साराना क गल पर हारद्वा मारकर खोने को चेन लुटकर ले भागा। चटमाश इलाके में लगे सीसीटीयों केमरे में कैद हो गया। घटना के बाद व्याचारियों ने आरोपों की गिरुकारी पर 10 हजार और जी आईपों इत्लाद वाली ने



20 हजार रुपए का ईनाम घोषित किया। इधर, आरोपी ने चेन को अपनी पत्नी के इधर, आतपा न चन का आना पत्ना कर नाम से मणजुरत गोरू फानशेक चंचने में गिरको रख 30 हजार रुपए ले लिए। पीछा कर रही पुलिस ने उसे घर से दखेग लिया। बाद में लुटी गई चन चरायद कर रही है। पुलिस ने महत्न आठ घंटे में लूट का चर्यकाल कर दिया। एएसमी सम्मतेही मिओ ने बताया कि 26 वर्षीय अंजना जैन पति सचिन जैन इलेक्ट्रानिक मार्केट इतवारा में रहती हैं। सचिन किराना को दुकान संचालित करते हैं।

भी पुष्पान संस्थानित करते हैं । भूका स्थापन पहले हो गई है । ऐसाल में करते हुई है । ऐसाल में करते अंदर भूगवार पूचर करीय आठ भूगवार पूचर करीय आठ भूगवार पूचर करीय आठ भूगवार पूचर कराय आठ में मेरिया नोग के लिए स्थापन निकासी भी स्थापनित अंदर्श के पास चीवे से बीवों नामा एक सुदेश स्थापनी करीय में में स्थापनित कराय में

क पात पाछ स दाहुत आपा एक लुटरा उनके गले से सोने की चेन शीनकर भाग निकला। इससे पहले वह कुछ समझ फारी, आरोपी फरार ही गया। इसके में लगे सीसीटीयी कैमरे में वह पैदल धारते हुए दिया है। लुटी गई चेन करीब 1 होला वजनी थी। इसके बाद पीड़िता, परिजनी के साथ कोतवाली धाने पहुंची और अज्ञात के खिलाफ लूट का केस दर्ज करवाया।

कारपेंटर ने गर्भवती पत्नी के लिए की लूट

पुलिस, आरोपी नाजिम का आपराधिक पुनस्त, आराव नाज्य का आरावाध्क रिकार्ड कंगल को है। प्रार्थिक पूजाह में अरोपी ने बताया कि वह कारपेंटर का काम करणा है। इन दिनों पैसो को आर्थिक तंत्री था। 9 अक्टूबर को उसकी बात को शादी है। उसकी पत्नी नार्थकों है, जिसकी हस्त्रीभर में डिटलेक्टी होने वाली है। इचाई हफोभर में डिलेक्सी झेने जाली है। दवाई व अन्य कर्ष के लिए उसने लूट की थी। शूट के बाद उताने चली को बतावा कि जिस ज्यक्ति रहे में प्रति में स्टेडिंग में से देकर चेन दी है इसे गिरकी रखकर पैसे ले ली। जिदा चेन लेकर कायनेंद्र कंपनी यहां में थी। फिलावाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में

डीआईजी ने 20 हजार और व्यापारियों ने 10 हजार रुपए का ईनाम किया घोषित

लूट को जानकारी तथाते की कोतवाली बाना प्रभागे करण गिंड टाकुर रामेश शीएराणी बिंदू तार्था, एएराची जोन-की दमसनेती गिश्रा और एएराची जोन-वन ऑकित जापरासान मेके पर पहुँचे और परतास्त्रमा का मुख्यानन किया घरना के खर जापरासान मेके को के प्रकारक के लिए 10 इसर रूप एक मा अपनी तार भी जापरा की प्रमा अपनी तार भी भोषित किया। जबकि बीआईमी इरसाद वाली ने 20 हजार रूपए का इनाम पोर्टन

पत्नी के नाम से कटवाई थी रसीद

पुलिस ने सोताल मीडिया पर उन्नरेणे का पुन्देन लेक्स किया। इससे उनको पहचान हानी खाल के पास नरीक निवासी नारिका खान (30) निवा अव्युक्त कारित के कम में हुई। पुलिस आरोपों को लासल में जूटी की, तभी पात लाग कि नारिका में इसकी गेट रिवाद सम्पन्त्रस मोल्ड प्रथमित कंपनी में लूटी वर्ष पैन 30 इक्सर रूपम् में निवास रखी है। उनमें सोदि पर्नति निवा के नाम से कटवाई की श्रीकर करीक पास को पुलिस ने जो पर से रिवास कर निवास उनके साथ 30 इक्सर रूपमें किया है।